

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2015—श्रावण 16, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2015

क्र. बी-बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक बी-11-03-2015-चौदह-2, दिनांक 15 मई 2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ 2015 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में जिला उज्जैन एवं सीहोर, संलग्न संशोधित सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. मौसम खरीफ वर्ष 2015 जिला उज्जैन एवं सीहोर के पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्का की सूची

मौसम खरीफ			वर्ष 2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित							
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
उज्जैन	तराना	तराना	00056	इटावा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00057	नाहरखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00058	बरखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00059	झरनावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00060	देवीखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00061	बेरछी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00062	नैनावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
उज्जैन	तराना	तराना	00063	खरखडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00064	बोरदा गुर्जर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00065	कनादीर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00066	सिद्धपुरनिपान्या		-	सोयाबीन	-	-	-
			00067	खम्बूखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	तोबरीखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00069	छड़ावद		-	सोयाबीन	-	-	-
			00070	नौगांवा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00071	गावडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00072	तराना कस्बा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00073	करन्ज		-	सोयाबीन	-	-	-
			00074	छापरी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00075	दिलोद्री		-	सोयाबीन	-	-	-
			00076	सामगी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00077	बंजारी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00078	टिटोडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00079	लिम्बोदा तराना		-	सोयाबीन	-	-	-
			00080	गोलवा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00081	सालाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00082	भडसिम्बा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00083	कावलीखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00084	लसुड़ियाबेचर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00085	रायपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00086	दूबली		-	सोयाबीन	-	-	-
			00087	मुंडली		-	सोयाबीन	-	-	-
			00088	बीजपडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00089	बघेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00090	बगोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00091	कनासिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00092	बरंडवा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00093	दूधली		-	सोयाबीन	-	-	-
			00094	पलदूना		-	सोयाबीन	-	-	-
			00095	साकरी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00096	सुमराखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00097	खारपा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00098	कायथा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00099	मल्लूपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00100	नानूखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00101	पिपल्याकायथा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00102	बोरदामांडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00103	आसेर कायथा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00104	जवासियाकुमार		-	सोयाबीन	-	-	-
			00105	बेलरी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00106	नलेश्री		-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
उज्जैन	तराना	तराना	00107	काठबडोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00108	खजूरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00109	भट्टनी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00110	उपडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00111	खातीखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		माकडोन								
			00001	पाट		-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	ईलमखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	पाडसी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	बडोदिया (मकडोन)		-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	सुवास		-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	झुमकी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	तेजलाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	गोदडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	सालनाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	बगवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	कांथडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	सुचाई		-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	भोडल्या		-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	चितावल्याखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	लसुडियाअमरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	खजूखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	चांदन्याखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	झलारा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	ढाबलाहरदु		-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	टुकराल		-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	परसोली		-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	चिरडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	कडाई		-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	चिकली		-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	बारोठिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	माकडोन		-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	कडोदिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	कटवारिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	गुदडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	गुराडियागुजर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	परी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	रामडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	सरली		-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	डेलची		-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	केसवाल		-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	हासलपुर झिरन्या		-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	नान्देड		-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		माकडोन	00038	खेडापंचोल		-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	रूपाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	सामानेरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	ढाबलाराजपूत		-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	लसुडियाहमीर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	पानखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	लिम्बादित		-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	कपेली		-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	उमराझर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	लालाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	करेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	डोबडागुजर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00050	लोध		-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	देवली		-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	खामली		-	सोयाबीन	-	-	-
			00053	कचनारिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00054	तिलावद		-	सोयाबीन	-	-	-
			00055	बिसनखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
सीहोर	सीहोर	सीहोर	19	कस्बा सीहोर		-	सोयाबीन	-	-	-
	इछावर	इछावर	55	सेमली जदीद		-	सोयाबीन	-	-	-